



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10001 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Takhatgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Takhatgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल तखतगढ़ जिला-पाली राजस्थान

प्रपत्र - क

वार्ड संख्या	विवरण
वार्ड संख्या-01	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ श्री वीराराम पूनमाजी सुथार के बेरे से होते हुए भीलों की बस्ती के मकानात लेते हुए जोधा नगर की बस्ती लेते हुए पादरली रोड़ पर बसी ढोलियों की बस्ती लेते हुए पश्चिमी दिशा की कृषि भूमि लेते हुए होकावा बस्ती लेते हुए हीरसिंह की दुकान से पश्चिमी उत्तरी दिशा के समानान्त मकान लेते हुए गेनाराम कुमावत की गली लेते हुए हेमाराम की गली लेते हुए वीरसिंह की गली आमने सामने मकानात लेते हुए भंवरसिंह की गली लेते हुए भूरसिंह के मकान लेते हुए फाऊलाल रावल का मकान के समानान्तर मकान लेते हुए नारायणसिंह के मकान से उलारिया मार्ग पर उत्तरी दिशा के मकान लेते हुए फुटरदास वैष्णव की गली में आमने सामने मकानात् लेते हुए पूनाराम भील की गली लेते हुए आगे कृषि भूमि लेते हुए उलारिया मार्ग सोमियों की डोली लेते हुए मानाराम प्रजापत के मकान के आगे कृषि भूमि तक।
वार्ड संख्या-02	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ की बाबुजी पुत्र हिन्दूजी के नोहरे से होते हुए पाबुबाई हिन्दूजी के मकान से रसीद कुरेशी के मकान होते हुए भंवर मीणा एंव कोर्नर पर

	कन्हैयालाल कुम्हार के मकान से दक्षिणी पश्चिमी दिशा उलारिया धाम से कृषि भूमि लेते हुए बाबुलाल मीणा के समानान्तरण मकान लेते हुए आसुराम चौधरी की गली एवं आमने सामने मकान लेते हुए बाबुभारती की गली रमजान खां की गली लालाजी सुथार के मकान के आमने सामने मकान लेते हुए रामदेव गली की पश्चिमी कतार लेते हुए रामाजी प्रजापत के मकान एवं उलारिया मार्ग पर आमने सामने मकान लेते हुए नेमजी भीखाजी के दुकान तक।
वार्ड संख्या-03	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ बाबुजी हिन्दुजी के नोहरे से रामदेव गली में प्रवेश कर पूर्व दिशा के सम्पूर्ण मकानात लेते हुए पूनाराम सगताजी के मकान लेते हुए पीताम्बर सम्पूर्ण गली लेते हुए वगताजी जोधाजी बडवाल के मकानात कतार लेते हुए टांवर वाली गली लेते हुए पी.एल. मिस्त्री की कतार लेते हुए पुराना बस स्टेण्ड राजेश्वर कॉम्प्लेक्स होते हुए अस्पताल एवं स्कूल नम्बर 2 तक। पी.एल. मिस्त्री के मकान होते हुए देवाराम चौधरी के कुए तक सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए भबुतजी चौधरी के मकान की कतार लेते हुए शिवलाल के मकान की सम्पूर्ण गली एवं राधाबाई की गली में प्रवेश कर सम्पूर्ण बस्ती लेकर रामारामजी अध्यापक के मकान की कतार लेते हुए नेमजी भीखाजी के मकान तक।
वार्ड संख्या-04	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ कन्या पाठशाला से तोलाजी सोनी के मकान से पानी की टंकी से प्रवेश कर टेकाराम के गैरेज की गली के आमने सामने मकानात लेते हुए हीराचंद मेधराजजी का नोहरा लेते हुए रामदेव मन्दिर से होते हुए देवीचंद जैन के मकान की कतार लेते हुए सतीश नागर एवं कन्हैयालाल अरोड़ा के मकानात लेते हुए शेषमल सुथार की सम्पूर्ण गली एवं जयन्तिलाल सुथार की सम्पूर्ण गली लेते हुए हनुमानजी मन्दिर के पूर्व दिशा के मकानात लेते हुए हेडगेवार उद्यान के दक्षिण में सोहनलाल के सम्पूर्ण गली लेते हुए हनुमान मन्दिर के पश्चिम में भूरमल बंदारा की सम्पूर्ण गली एवं मदनजी बंदारा की सम्पूर्ण गली लेते हुए उत्तरी दिशा में छात्रावास होते हुए वेदाना मार्ग पर उत्तरी दिशा में कुटुम्ब कॉलोनी एवं सुभाष नगर की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए आगे कृषि भूमि लेते हुए मोहनलाल पूराजी कुमावत के बेरे तक।
वार्ड संख्या-05	इस वार्ड की सीमा नेहरू बाल उद्यान के उत्तरी दिशा में प्रवीण कुमार/फुटरमल नागर के मकान से प्रकाशचंद दलीचंद सोनी के मकान से मांगीलाल सुथार की सम्पूर्ण गली लेते हुए सुखराज जीनगर के मकान होते हुए देवीचंद सोनी के मकान से होते माताजी मन्दिर की गली के आमने सामने मकान लेते हुए रामदेव पार्क के आमने सामने मकान लेते हुए शान्ति पत्नी केसाराम की कतार लेते हुए आदाजी कुम्हार का मकान लेते हुए राजसिंह बालोत की गली के आमने सामने गली लेते हुए

	वेदाना मार्ग के दक्षिण में सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए खेजडिया हनुमान की कतार लेते हुए एवं आगे गाडोलिया लोहार की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए मदनजी रावल की सम्पूर्ण गली लेते हुए वर्धमान नगर में बसी सम्पूर्ण मकान लेते हुए श्रीपाल नगर तक।
वार्ड संख्या-06	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ पुलिस थाना के उत्तरी दिशा में आगे इन्द्रमल छीपा के मकान की कतार लेते हुए उम्मेदमलजी रावल मकान छोगाराम कुम्हार का मकान लेते हुए नेहरू बाल उद्यान की पश्चिमी दिशा में राधाबाई स्वरूपजी सुथार के मकान की कतार लेते हुए बर्फ फैक्ट्री के आगे बगदाराम कुम्हार के मकान तक। इन्द्र कृषि फार्म से गणेशजी मूलाजी के मकान के आमने सामने मकानात लेते हुए। हिम्मताजी माली की गली एवं पुराना पावटा रोड़ पर मकानात लेते हुए वागाराम कुमावत की गली में सम्पूर्ण मकान लेते हुए पूनमचंद खण्डेलवाल की गली लेते हुए राजेश्वर भारती की कतार लेते हुए गौरीशंकर रावल की गली के आमने सामने के मकान लेते हुए पुनाराम जी की दुकान होते हुए पुलिस थाना परिसर तक।
वार्ड संख्या-07	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ पुलिस थाना के दक्षिण में उम्मेदमल रावल की दुध डेयरी से होते हुए अर्जुनसिंह राजपुत के मकान लेते हुए पीतल फैक्ट्री के परिसर की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए रावल धर्मशाला के पीछे हनुमानजी रावल उमाशंकर रावल की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए पुनारामजी सुथार के मकानात होते हुए हेमजी सुथार चुन्नीलाल माली की गली के आमने सामने मकान लेते हुए कुयाराम सुथार की गली में आमने सामने मकानात लेते हुए जीवाराम लुहार के मकान की कतार लेते हुए दीपाराम जीनगर के मकान लेते हुए कुन्दनमल रावल की गली के आमने सामने मकानात लेते हुए अशोकजी माथुर के मकान होते हुए सरेमल कॉलोनी शिवाजी नगर (पदमाराम आश्रम) गणपति कॉलोनी अभय नोबल स्कूल, टैगोर स्कूल राजेन्द्र नगर एवं जालोर रोड़ आँकार नगर शिवाजी नगर, परिवार कॉलोनी शान्ति नगर, अरिहंत नगर, एवं पश्चिमी दिशा में बसी कॉलोनी, कुशल नगर के आगे कृषि भूमि (भूतेश्वर) पर बसी बस्तिया लेते हुए पुनः कस्बे की ओर शिव कॉलोनी एवं पेट्रोल पम्प के पास सम्पूर्ण आदर्श बस्ती लेते हुए सिंचाई कॉलोनी, सहकारी समिति के आगे उम्मेदमल सुथार की दुकान तक।
वार्ड संख्या-08	इस वार्ड की सीमा बीठिया प्याऊ से कृषि भूमि लेते हुए बायोसा मन्दिर कृषि भूमि लेते हुए शिव शक्ति नगर, कृष्णा कुंज, कृष्णा नगर, गैस एजेन्सी की कतार मकानात लेते हुए लखमाजी भूताजी कृषि भूमि लेते हुए हनुवन्त नगर की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए जितुसिंह के ऑफिस से उत्तर की ओर विष्णु कॉलोनी, शास्त्री नगर, केशाराम कुम्हार व सीता बाई वैष्णव के मकानात लेते हुए चुन्नीलाल जी सुथार राम दीन नगर बस्ती, बाबूजी, भवंरजी सुथार के मकानात लेते हुए भैराराम कसनाजी के

	<p>मकानात के आमने सामने के मकानात लेते हुए बीसाराम के आमने सामने के मकानात लेते हुए जलदाय कॉलोनी कि उत्तर की बस्ती लेकर नेहरू रोड़ तक एवं तालाब के उत्तर में भंवरसिंहजी का मकान मुख्य सड़क पर मीठालाल रावल साकलचंद रावल के मकानात लेते हुए नये बस स्टेण्ड की तरफ पशु चिकित्सालय के सामने की बस्तियो लेते हुए नया बस स्टेण्ड के पूर्व की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए बैंक आफ बडौदा की कतार के मकानात लेते हुए श्री अमीचन्दजी सुथार का मकान पी.एल. मिस्त्री रिचर्स सेन्टर सुमेरपुर चैराया तक के पूर्व की बस्ती तक।</p>
<p>वार्ड संख्या-09</p>	<p>इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ अवस्थी हॉस्पिटल से राजेश मेवाडा के मकान होते हुए हनीफ कुरेशी की दुकान होते हुए लच्छीराम हरिजन के मकान होते हुए लच्छीराम हरिजन के मकान आमने सामने लेते हुए मंछाराम मीणा व शौकत खां की गली के आमने सामने की कतार लेते हुए देवाराम पत्रकार का मकान के समानान्तर मकान लेते हुए भुराराम देवासी के आमने सामने मकान लेते हुए दक्षित दिशा में देवासी का मकान लेते हुए पश्चिम में आमने सामने मकान लेते हुए नारायणजी खटीक के मकान की कतार लेते हुए लुम्बाराम खटीक से महादेवजी मन्दिर होते हुए सरदारसिंह की सम्पूर्ण गली एवं मोचीयों की सम्पूर्ण गली लेते हुए मंछाराम कुम्हार के मकान से कस्तुराराम कुम्हार के आमने सामने मकान लेते हुए वाटर वक्रस कॉलोनी तक एवं नेहरू रोड़ पर मार्बल फैक्ट्री एवं सामुदायिक भवन तक।</p>
<p>वार्ड संख्या-10</p>	<p>इस वार्ड के सीमा स्कूल नं. 1 के पश्चिम दिशा के मकान लेते हुए मानारामजी मेघवाल की गली लेते हुए चैपाराम देवासी के मकान से दक्षिणी दिशा में मिश्रीमल हरिजन के मकान के आमने सामने मकान लेते हुए राम रहीम कॉलोनी की सम्पूर्ण बस्ती भुरजी मेघवाल के आमने सामने के मकान लेते हुए लीला देवासी के आमने सामने मकान लेते हुए गुलाबचन्द जीनगर के मकान से पुखराज मेघवाल के मकान के सामने मकान लेते हुए बालमजी मन्दिर वाली गली एवं मादाराम मीणा के मकान के आमने सामने के मकानात लेते हुए शनिश्चर मन्दिर एवं हापाराम मीणा की गली लेते हुए आगंवाडी केन्द्र से होते हुए हरतीलाल देवासी तोलदास देवासी के मकान तक एवं संतोषी नगर में बसी सम्पूर्ण कॉलोनी फालना रोड़ तक एवं पूर्व की दिशा में शास्त्री नगर एवं सतनाम कॉलोनी में बसी मकानात लेते हुए पीताराम हीरानगर के गली में चलकर रामदेव स्कूल तक कपूरजी मेघवाल की गली आमने सामने मकान लेते हुए मोहनलाल मेघवाल के मकान तक।</p>
<p>वार्ड संख्या-11</p>	<p>इस वार्ड की सीमा डायाराम सुथार की दुकान से दक्षिण दिशा में चलकर नवीन (R.C.C.) के मकान के सामने वाली गली में चलकर आमने सामने मकानात् लेते हुए जवारनाथ की गली लेते हुए मालनाथ के मकान तक एवं भुराराम देवासी का</p>

	<p>मकान एवं सम्पूर्ण जीवन बस्ती के मकानात लेते हुए अचलाराम हीरागर के मकानात लेते हुए भुबाराम हीरागर के मकान होते हुए कमलेश देवासी के आमने सामने मकान लेते हुए हंसाराम देवासी के मकान से परागजी देवासी एवं लाखाराम देवासी के मकानात लेते हुए नेहरू रोड के सामने मातेश्वरी भवन एवं गाडोलिया लोहार के मकानात लेते हुए तालाब के पास तक एवं कबीर द्वारा एवं बाबुखां के मकान की कतार लेते हुए नेहरू रोड तक।</p>
<p>वार्ड संख्या-12</p>	<p>इस वार्ड की सीमा का प्रारम्भ जगरामजी जाट के बेरे से होते हुए फालना रोड़ पार कर जैसाराम मीणा व वगताराम तरीगर की कृषि लेकर निहारगर कॉलोनी में बसी सम्पूर्ण मकान लेते हुए शान्ति नगर होते हुए सामुदायिक भवन से होते हुए मोहन घांची के मकान की कतार लेते हुए विरजी चौधरी तक एवं श्री चेतनाराम हीरागर के मकान से फकरू खां का मकानलेते हुए तलसाराम देवासी के मकान होते हुए छगनलाल के मकान के आमने सामने के मकानात लेते हुए सकाराम घांची की शंकरसिंह सोढा की गली के आमने सामने के मकानात लेते हुए कन्हैयालाल एवं शकर लाल के आमने सामने केमकान भैराराम हरिजन के मकानात की कतार लेते हुए गजाराम देवासी साकलाराम देवासी के मकान लेते हुए तालाब तक एवं रमेश हरिजन के मकान से गौरवपथ की ओर मादाराम शेषाराम एवं गली के आमने सामने के मकान जेठाराम जी का मकान लेते हुए कालूजी मीणा के मकान तक लक्ष्मण मीणा के मकान प्रताप की गली लेते हुए मीणो की बस्ती सरस्वती नगर कृषि भूमि लेते हुए हनुमान जी मन्दिर भैरू जी मन्दिर की और कृषि भूमि लेते हुए करणी महिमा नगर श्रीराम कॉलोनी एवं रूपरजत कॉलोनी में स्थित जोशी हॉस्पिटल की कृषि भूमि में बसी बस्तियों को लेकर साईबाबा नगर एवं शकुर खां के मकान से होते हुए गोगाजी मन्दिर होते हुए सुभाष मेवाडा के मकान लेते हुए लुम्बाराम घांची के मकान के सामने केसाराम घांची के मकानात होते हुए पश्चिम की ओर गाजी खां के पास सम्पूर्ण मकान लेते हुए उत्तरी दिशा में रमजान खां के मकानात होते हुए।</p>
<p>वार्ड संख्या-13</p>	<p>इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ आंगनवाडी के सामने जवानाराम प्रजापत के मकान के आमने सामने मकान लेते हुए वरदाराम घांची की गली के आमने सामने मकान भीखाराम घांची के मकान से फुटरदास वैष्णव के प्लोट के पूर्व दिशा में जैसाराम घांची के मकान की कतार लेते हुए सदीक मोहम्मद की गली के आमने सामने के मकानात एवं सब गलियों की बस्तियों लेते हुए मन्नालालजी चौधरी के मकान एवं आंगनवाडी के दक्षिण में सरफुदीन के मकान की कतार लेते हुए रूपदास वैष्णव एवं</p>

	तगाराम के मकान लेते हुए शान्तिबाई वैष्णव के मकान होते हुए सम्पूर्ण हिरागरों की बस्तिया लेते हुए मंछाराम हीरागर के मकान तक।
वार्ड संख्या-14	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ जरीना बानु की गली तेजाराम कुम्हार से होते हुए थानसिंह के मकान की कतार लेते हुए भंवरलाल घांची की पुरी गली राजपुरा रोड़ तक व भवरलाल के घांची के मकान से खेताराम घांची के मकान से नारायणलाल देवासी के मकान होते हुए दौलाराम मीणा तक। भीखजी घांची के नोहरे से होते हुए रमेश घांची के मकान होते हुए गीगाराम ढोली के मकान के आगे गली तक व दीपाराम घांची के मकान से मुपाराम घांची के मकान तक व राजपुरा रोड़ तक एवं मादाराम घांची की सम्पूर्ण गली राजपुरा रोड़ तक एवं सुन्धा नगर में बसी सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए लादाराम मीणा के मकान की सम्पूर्ण कतार लेते हुए पश्चिमी दिशा में लाखाराम देवासी भलाराम मीणा पुखजी सुथार के आरा की सम्पूर्ण आमने सामने के मकान सम्पूर्ण गली तक।
वार्ड संख्या-15	इस वार्ड की सीमा का प्रारम्भ श्री रकबाराम, देवाराम कुम्हार की गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेते हुए स्कूल नम्बर 3 के पिछे हिम्मताजी मीणा के मकानात लेते हुए तखतगढ बांध तक कृषि भूमि मे बसे मकानात लेते हुए चतराजी कुम्हार व धोरा बस्ती के आमने सामने के मकानात लेते हुए जगत इजिनियरींग वर्क्स शाफ की कतार होते हुए गौशाला शंकर धोबी का मकानात लेकर श्री प्रभुजी सुथार की कतार के मकानात लेते हुए मदनजी कलाल की दुकान लियाकत खांजी के मकानात व जेपाराम जी घांची के मकान तक।
वार्ड संख्या-16	इस वार्ड की सीमा बायोसा मन्दिर से प्रारम्भ कर गली की कतार को लेते हुए मूलाजी छोगाजी, मदनलाल मेवाडा के मकान लेते हुए नुक्कड पर टायर पंचर की दुकान से डूंगाराम चौधरी की दुकान वाली गली में प्रवेश कर रायका वास बस्ती हस्मुखजी चौधरी, शान्तिलाल चौधरी का मकान लेते हुए कन्हैयालाल माली डायाराम भूरजी देवासी का मकान कतार की लाईन लेकर गली के आमने सामने के मकानात लेकर मूलाजी चौधरी के मकान तक। पुनः नेनाराम चौधरी का मकान लेते हुए मुख्य सड़क से मामाजी गली में प्रवेश कर शंकर लाल हीरागर के मकानात की कतार लेते हुए बगदाराम हिरागर की मकान कतार लेते हुए रामदेव मन्दिर व मांगीलाल मेघवाल के मकान व सामने समानान्तरण मकान लेते हुए पुनः हरीलाल मेघवाल का मकान लेते हुए वरजु बाई तरीगर का मकान लेते वगताराम तरीगर का मकान तक एवं सामने रतनलाल हरिजन का मकान लेते पुनः जुहारमल हरिजन का मकानात की कतार लेते हुए मामाजी मन्दिर तक।
वार्ड	इस वार्ड का प्रारम्भ तालाब की पाल के उत्तर में स्थित डकलों का वास में सम्पूर्ण

संख्या-17	बस्ती को लेते हुए मुख्य बाजार रोड़ मस्जिद की कतार से रेबारियों के वास रतनाराम रूपाजी देवासी की गली में सम्पूर्ण मकानात लेते हुए कलाल गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेते हुए केवाराम सरगरा, मकनाराम हिरागर की गली के सामने सामने के मकानात लेते हुए मीणों का वास नगाराम मीणा से लादुराम मीणा की कतार लेते हुए भीकजी सोनी गली तक एवं उक्त गली से जवानमल सोनी के मकानात लेते हुए मछाराम घांची पुनाराम चौधरी भैराराम मेघवाल ताराराम मेघवाल मांगीलाल पत्रकार की गली लेते हुए मामाजी गली के नुक्कड़ तक एवं पुनः हनुमान मन्दिर की ओर कतार लेते हुए मेघाजी मेघवाल के आमने सामने की कतार के मकानात लेते हुए हरिजन बस्ती कान्तिलाल का मकान लेते हुए मुख्य सड़क मस्जिद के सामने धर्माजी आरा तक।
वार्ड संख्या-18	इस वार्ड की सीमा धोरा बस्ती में विजय लुहार के मकान से प्रारम्भ किया जाकर आंगनवाडी गौशाला की गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेकर थानजी मेघवाल परकाजी की गली के आमने सामने के मकानात लेते बन्दारा गली के नुक्कड़ तक श्री बाबुलाल जैन रामकावा मे टॉवर वाली गली में प्रवेश कर रामकावा वास में बस्ती सम्पूर्ण बस्ती की लेकर जबरसिंह तरवाडा के मकान के दोनो ओर की गलियों एवं सब गलीयो में बसी बस्ती के मकानात लेते हुए सोनाराम चौधरी के कृषि भूमि पर बसी बस्ती एवं स्कूल नम्बर 3 के सामने जैसाराम एवं छोगाराम कुम्हार के मकान तक की बस्ती।
वार्ड संख्या-19	इस वार्ड की सीमा दीपजी जैन के मकान से प्रारम्भ कर खैरादीयों के वास में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेते हुए मुख्य सड़क छोटू खां मकान से फतेह मोहम्मद के मकान रंगरेज गली बाल्दिया गौराज तालाब की पाल तक के मकानात आमने सामने लेते हुए शान्ति निवास लेते हुए मिश्रीमल गर्ग का मकान लेते हुए कचरा मुथा गली में मुख्य सड़क के समानान्तरण मकान लेने हुए गणेशजी जैन मकान तक एवं गोगरा रोड़ सिनेमा हॉल से कोयटा वाली गली की बस्तियों को लेते हुए गोगरा रोड़ कृषि भूमि बसी बस्तियों को लेते हुए शमशान रोड़ से होली चैक तक के मकानो की कतार लेते हुए माताजी मन्दिर घीसूलाल जैन के मकान से बलाना गली सम्पूर्ण आमने सामने के मकानात लेते हुए मुख्य रोड़ पर बस्तियों के मकानात होते हुए पुनः बन्दारा गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकान लेते हुए भीकजी सोनी मकान सादो की गली जुहारमलजी जैन तक के आमने सामने के मकानात लेते हुए मुख्य बाजार रोड़ के मकानात लेते हुए तगारामजी कुम्हार व चन्दनमल दर्जी के मकान तक।
वार्ड	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ की ईदाराम घांची के मकान से देवाराम घांची के मकान

संख्या-20	लेते हुए चुण्डा गली में प्रवेश कर आमने सामने मकानात लेते हुए मुख्य बाजार के आमने सामने मकानात लेते हुए बाण्डी गली में प्रवेश कर आमने सामने मकान लेते हुए गोगरा रोड के मकानात लेते हुए मन्दिर गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेते हुए मैन बाजार के मकान लेते हुए जोगनी गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकान लेते हुए एवं ढाकी गली में प्रवेश कर पीरदरगाह होते हुए तालाब गली में प्रवेश कर आमने सामने मकानात लेते हुए जैन मन्दिर जवाहर चौक पुरानी नगर पालिका के आगे-पीछे मकानात लेते हुए मनोज नामा के मकान लेते हुए जैन मन्दिर शितला माता मन्दिर एवं कुआ तालाब की पाल होते हुए भूरमलजी संघवी के मकान होते हुए पटवार घर लेते हुए कोट गली में प्रवेश कर सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए लक्ष्मी भवन तक।
वार्ड संख्या-21	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ सामुदायिक भवन के उत्तरी दिशा में जैन शमशान विष्णु समाज वैकुण्ड धाम होते हुए जोताजी घांची के मकान लेते हुए हनुमानजी गली में प्रवेश कर मुख्य बाजार की दुकान लेते हुए सांगा गली व बोकरा गली के आमने सामने मकान लेते हुए मुख्य बाजार की दुकान लेते हुए पेचका गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकान लेते हुए लक्ष्मीजी मन्दिर होते हुए तालाब की पाल तक (पेचका) श्रीपाल भवन होते हुए कुन्देश्वर महादेव मन्दिर (बगीची) रामदेव मन्दिर होते हुए पोस्ट ऑफिस गली में प्रवेश कर आमने सामने के मकानात लेते हुए मुख्य बाजार की दुकान लेते हुए भैरू बाग गली नम्बर 3 सम्पूर्ण गली तक।
वार्ड संख्या-22	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ गोगरा रोड चौथमल जोशी के मकान होते हुए सुथार गली में प्रवेश कर आमने सामने मकान लेते हुए भैरूबाग गली नम्बर 2 में प्रवेश कर आमने सामने के मकान लेते हुए एवं सम्पूर्ण रामदेव गली के मकानात लेते हुए मुख्य बाजार की आमने सामने दुकान लेते हुए जाडो की बगीची होते हुए लालचंद कुन्दनमल जैन की दुकान की कतार लेते हुए लक्ष्मी मेडीकल एवं पूर्व में मनोज नामा के कार्यालय तक।
वार्ड संख्या-23	इस वार्ड की सीमा पादरली चौक जगदम्बा कॉम्पलैस से प्रारम्भ कर गोगरा रोड तक मुख्य सड़क की कतार के मकानात लेते बजरंग सिंह जोधा के मकान से सैनिक बस्ती में प्रवेश कर दिनेश सुथार, हनुमान सिंह के मकानात लेते हुए नविन बालिका विद्यालय, ब्रहमाकुमारी, मनोहर सिंह जोधा से बगदाजी माली तक व आमने सामने की सैनिक बस्ती को लेकर जैसाराम लोहार, नरपतसिंह की गली सागरदान के मकान तक में आमने सामने के मकानात लेते चतरदान व वैरसिंह भूरसिंहजी के मकान तक एवं पादरली रोड तक के आमने सामने के मकानात लेते हुए पादरली रोड के खेताराम सुथार से गली के प्रवेश कर दीपाराम नाई, मोहन सुथार व घीसूदास,

	पुरषोत्तम दास के मकानात की सम्पूर्ण गली लेते हुए अम्बाजी मन्दिर बसी बस्तियों को लेते हुए चौथाराम घांची पादरली रोड़ तक।
वार्ड संख्या-24	इस वार्ड सीमा का प्रारम्भ सैनिक बस्ती से हनुमान मन्दिर से प्रारम्भ कर हिरसिंह/बंशीदास वैष्णव से हमीराराम देवासी तक की गली के आमने सामने के मकानात लेते हुए पादरली रोड़ से ममलेश्वर महादेव तक के मुख्य सड़क के मकानात लेते हुए शिवम विहार कॉलोनी में जगदीश रावल के मकानात एवं सर्वोदय नगर में बसी बस्तियों के महादेव नगर के मकानात लेते हुए वालजी रावल कुएं तक के पूर्व के मकानों की कतार लेते हुए भवरी बाई गिरधारीसिंह, शकरालाल घांची प्रभुराम कुम्हार की गली लेते हुए गणपत भीमाजी नाई के मकानात तक की आमने सामने की गलियों के मकान लेते हुए गली तक।
वार्ड संख्या-25	इस वार्ड की सीमा प्रारम्भ पादरली चैक प्रतापजी प्याऊ से दरगाराम घांची चक्की गली प्रवेश कर इंगाराम नाई के मकान के आमने सामने मकानात लेते हुए वागर वास की सम्पूर्ण गलिया लेते हुए रूपदास की गली के आमने सामने मकानात लेते हुए पुनः चक्की गली में प्रवेश कर गांधी हॉस्पिटल एवं आमने सामने मकान लेते हुए वीसाराम की दुकान तक एवं पूर्व दिशा में जागनाथ मन्दिर एवं धर्मशाला तक।

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका तखतगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।